



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1983/चैत्र 10, 1905
No. 159] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 1983/CHAITRA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1983

का०आ० 265(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधि-
नियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय
सरकार, सिण्डिकेट बैंक के अनुरोध पर 31 मार्च, 1983
से कर्नाटक राज्य में बीजापुर ग्रामीण बैंक के नाम से एक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि कर्नाटक
राज्य के बीजापुर जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ० 1(27)/82-आर० आर० बी० (I)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th March, 1983

S.O. 265(I).—In exercise of the powers conferred by sub-
section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act,

1535 GI/82

1976 (21 of 1976), the Central Government, on being re-
quested so to do by Syndicate Bank establishes, with effect
from the 31st March, 1983 a Regional Rural Bank in the
State of Karnataka under the name of Bijapur Gramena
Bank which shall operate within the local limits of the district
of Bijapur in the State of Karnataka.

[No. F. 1(27)/82-RRB(I)]

का०आ० 266(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधि-
नियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा
(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय
सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बीजापुर ग्रामीण बैंक के
प्रायोजक सिण्डिकेट बैंक से परामर्श करके, बीजापुर को उस
स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर बीजापुर
ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ० 1(27)/82-आर० आर० बी० (II)]

S.O. 266(I).—In exercise of the powers conferred by sub-
section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act,
1976 (21 of 1976), the Central Government, after consul-
tation with the Reserve Bank of India and Syndicate Bank
by which Bijapur Gramena Bank has been sponsored, speci-
fies Bijapur as the place where Bijapur Gramena Bank shall
have its head office.

[No. F. 1(27)/82-RRB(II)]

का०आ० 267(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (III) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, बीजापुर ग्रामीण बैंक बीजापुर को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिमूर्चित करती है।

[संख्या एक० 1(27)/82-आर० आर० बी० (III)]

S.O. 267(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said sub-clause, Bijapur Grammeena Bank, Bijapur being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Bank Act, 1976 (21 of 1976).

[No F. 1(27)/82-RRB(III)]

का०आ० 268 (अ) —प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा II की उपधारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री के० बी० शंभाग को बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 31 मार्च, 1983 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री के० बी० शंभाग अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक० 1(27)/82-आर० आर० बी० (IV)]

बी० के० दीक्षित, मयुक्त सचिव

S.O. 268(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri K. V. Shanbhag as the Chairman of the Bijapur Grammeena Bank Bijapur and specifies the period commencing

on the 31st March, 1983 and ending with the 31st March, 1986 as the period for which the said Shri K. V. Shanbhag shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1(27)/82-RRB(IV)]

V. K. DIKSHIT, Jt. Secy.

**भारतीय रिजर्व बैंक
(ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष)**

अधिसूचना

बम्बई, 31 मार्च, 1983

का० आ० 269 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निवेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात्:—
“बीजापुर ग्रामीण बैंक बीजापुर कर्नाटक”

[संख्या आर०पी०सी०डी०/251/आई०एन०सी०एल०/311/83]

एच० बी० शिवमग्गी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Rural Planning and Credit Department)

NOTIFICATION

Bombay, the 31st March, 1983

S.O. 269(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Bijapur Grammeena Bank, Bijapur (Karnataka)”.
[RPCD. No 251/INCL/311/83]

H.B. SHIVAMAGGI, Executive Director